

## Chapter - 8

टैली में स्क्रीन एरिया के बीच स्विचिंग कैसे करें


### How to Switching between screen areas in Tally

(टैली में स्क्रीन एरिया के बीच स्विचिंग कैसे करें)

#### Switching between screen areas

जब टैली पहली बार लोड होती है तब निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होती है-

इस स्क्रीन और स्क्रीन के निचले भाग में स्थित कैलकुलेशन /ODBC सर्वर एरिया के मध्य टॉगल करने के लिए स्क्रीन पर संकेत अनुसार Ctrl+N अथवा Ctrl+M दबाएँ | एक हरे रंग का बार स्क्रीन के एक्टिवेट एरिया को हाईलाइट करेगा |



Calculator/Title Bar(CTRL+N)

Gateway of Tally.ERP9 (Main Area-CTRL+M)

Buttons Bar

Tally के Screen area में स्विच करने के लिए (CTRL+N) और (CTRL+M) शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है |